



## आठवीं विहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (उ.ग.) मुख्य/पूरक/सेमेस्टर परीक्षा- 20..... HM No. ....

**304**

### परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निरें

1. उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने ही पहले जाच ने कि मुख्य पूर्ण महिला पूर्ण की कृत संख्या ११ है। परि कोई सूच खात्व हो या कम से तो कक्ष निरीक्षक/ग्रीष्मक सो अध्यात करावे।
2. उत्तर पुस्तिका के मुख्य पूर्ण पर दिये गये नियमों तथा हाथ पर अपना अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक एवं अन्य जानकारीयों साथसांग पूर्ण करें।
3. उत्तर पुस्तिका के मुख्य पूर्ण के भाँती भाग को छाती छोड़ दें एवं नये पूर्ण से उत्तर लिखना प्राप्त करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नये पूर्ण से लिखना प्राप्त करें।
4. प्रश्नचिह्नों/खण्डितों उत्तर का मात्र लिखने को छोड़कर उत्तर लिखने के लिए अच्छी गुणवत्ता बताते नीति या कानूनी स्थानों के बातें प्राप्त करें।
5. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ कोई भी लिखित सामग्री जैसे संबंधित विषय/प्रश्न पर से संबंधित पाठ्यपुस्तिका, नोटरस, कागज, अपने शरीर के किसी भी आंग या वस्त्र में लिखकर न लावें।
6. परीक्षा भवन में योग्यांकन घोन, डिजिटल यड्डी/पेन, माइक्रोफिल कंल्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं प्रतिवर्गित हैं।
7. उत्तर पुस्तिका में पूछे गये प्रश्नों के अतिरिक्त परीक्षक के लिए किसी भी प्रकार का अनग्रह शब्द/वाक्य अथवा किसी भी प्रकार का पहचान चिन्ह/निराग/संकेत अविलम्ब न करें।
8. परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर अनुक्रमांक के अन्तात्ता कुछ भी न लिखे एवं स्फूर्ति न करें।
9. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में बैठक/कंल्यूटर/इन्फ्रारेड/इन्फ्रारेड रस्ते के अन्तर्गतों/अनुरोधों/अनुरोधों का पालन करें एवं अनुशासित हो। परीक्षा संचालन से संबंधित किसी भी व्यक्ति से अवगत व्यक्तिहान करें।
10. परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर लिखने में पूछों का गिरन करें। उत्तर लिखने के बाद यहे तिक्टों को एक घण्टे के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जावेगी। उत्तरों में तात्परी परीक्षा प्रश्न पत्र पर उत्तर पुस्तिका/पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर पुस्तिका के मुख्य पूर्ण में नियमित स्थान पर अनिवार्य है।
11. परीक्षा समाप्त होने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका वीसक को सीधे के बाद बैठक को अनुमति से छोड़ "अ"/SECTION "A"
12. परीक्षा समाप्त होने से पूर्व वीसक परीक्षार्थी द्वारा मुख्य पूर्ण पर भी जानकारीयों द्वारा दिलाई जाए।
13. परीक्षा समाप्त होने से पूर्व वीसक परीक्षार्थी द्वारा मुख्य पूर्ण पर भी जानकारीयों द्वारा दिलाई जाए।
14. प्रश्न पत्र में पूछे गये प्रश्नों/वृत्तियों के संबंध में यदि कोई शिक्षक उत्तर लिखने से अपनी शिक्षापत्र परीक्षा समाप्ति के तुलना चाहत है तो उत्तर पुस्तिका को दें। परीक्षा का वहिकार करने पर दोबारा परीक्षा अन्यान्य नहीं की जातेगी।
15. यदि कोई उत्तर २.३.४.५.६.७.८.११ एवं १२ का पालन नहीं किया जाता है तो यह अनुचित साप्तन का प्रकरण माना जायेगा।

### परीक्षार्थियों को चेतावनी

- अनुशासनरत्ना का प्रदर्शन करने, निर्देशों का पालन न करने अथवा अनुचित साप्तनों का प्रयोग करने के पश्चात्पात्र व्यवहार एवं परीक्षार्थियों को दृढ़व्यवहार परीक्षाओं में समीक्षित होने से तीन वर्ष तक के लिए याचिक किया जा सकता है। अपर्याप्त अधिकारीया में होने पर आपातक का अनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जातेगी।

कंल्यूटर की मुहर

परीक्षा का नाम.....

|                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| अनुक्रमांक (अंकों में) | <input type="text"/> |
| Roll No.               | <input type="text"/> |

|                         |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| अनुक्रमांक (शब्दों में) | <input type="text"/> |
| Roll No.                | <input type="text"/> |

नामांकन क्रमांक (Enrollment No.):-

विषय :-..... प्रश्न पत्र -.....

प्रश्न पत्र का नाम :-..... दिन :-.....

परीक्षा का दिनांक :-..... (परीक्षार्थी द्वारा भरा जावें)

संलग्न पूर्ण उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या :-..... (परीक्षार्थी द्वारा भरा जावें)

परीक्षार्थी द्वारा हल किये गये प्रश्नों की संख्या :-..... (परीक्षार्थी द्वारा भरा जावें)

| मुख्य/पूरक परीक्षा | सेमेस्टर परीक्षा |             |        |            |             |        |            |             |        |            |
|--------------------|------------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|------------|-------------|--------|------------|
| प्रश्न             | प्राप्तांक       | (अंकों में) | प्रश्न | प्राप्तांक | (अंकों में) | प्रश्न | प्राप्तांक | (अंकों में) | प्रश्न | प्राप्तांक |
| 1                  |                  |             | 1      |            |             | 2      |            |             | 3      |            |
| 2                  |                  |             | 1      |            |             | 2      |            |             | 3      |            |
| 3                  |                  |             | 2      |            |             | 3      |            |             | 4      |            |
| 4                  |                  |             | 2      |            |             | 3      |            |             | 4      |            |
| 5                  |                  |             | 3      |            |             | 3      |            |             | 4      |            |
| 6                  |                  |             | 4      |            |             | 4      |            |             | 5      |            |
| 7                  |                  |             | 5      |            |             | 5      |            |             | 6      |            |
| 8                  |                  |             | 6      |            |             | 6      |            |             | 7      |            |
| 9                  |                  |             | 7      |            |             | 7      |            |             | 8      |            |
| 10                 |                  |             | 8      |            |             | 8      |            |             | 9      |            |

मेरा प्रपाति करता है कि उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन मेरा क्रमांक, नामांकन क्रमांक एवं अनुक्रमांक द्वारा दिलाई जाए गयी है।

परीक्षा का हस्ताक्षर -.....

